



Corp. Off.:- 201, "The Summit Business Bay"
Behind Guru Nanak Petrol Pump,
Off Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai - 400 093 (India)
Ph. : +91 22 69073100

Date: 01.09.2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

Kind Attn: General Manager-DCS

Scrip Code: **533543**

Kind Attn: Head- Listing

Symbol: **BROOKS**

Sub: Newspaper advertisement pertaining to Rights Issue.

Respected Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 92 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to Rights issue related advertisement. The advertisements were published in English, Hindi on 31st August 2023 and regional language newspapers on 1st September 2023.

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully

For **BROOKS LABORATORIES LIMITED**

Jai Vaidya

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As stated.

TATA TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28290MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest for Supply of Fire Hydrant & Jockey pump complete assembly with motor and supervisory services required during installation and commissioning at Mundra Thermal Power plant (MTPS), Mundra, Gujarat

Details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc. may be downloaded from the tender section of our website URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>.

Eligible parties willing to participate in above tender may submit their Expression of Interest along with the tender fee for issue of bid document latest by **11th September 2023**.

यूको बैंक UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office-1, Department of Information Technology
3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064

NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank Invites tender for Engagement of Network System Integrator (NSI) and setting up of Bank's Network Operation Centre (NOC) through GeM portal. For any details, please refer to <https://www.ucobank.com> or <https://gem.gov.in>

Date: 31.08.2023 Department of Information Technology

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1955PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:00 A.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Business, as mentioned in the Notice for convening the 66th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1955PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:00 A.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Business, as mentioned in the Notice for convening the 66th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1955PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:00 A.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Business, as mentioned in the Notice for convening the 66th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1955PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:00 A.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Business, as mentioned in the Notice for convening the 66th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN : L29199HR1955PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 11:00 A.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Business, as mentioned in the Notice for convening the 66th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered office of the Company i.e. 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003.

POINT ONE POINT ONE SOLUTIONS LIMITED
Registered Office: International Infotech Park, T-762, Tower-7, 6th Floor, Vashi, Navi Mumbai -400703.
Tel. No.: +91 (22) 6687 3600, Fax No.: +91 (22) 6687 3889, Website: www.point1.com
Email: investors@point1.in; CIN: L74900MH2008PLC182869

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that in compliance with Circulars issued by MCA from time to time and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 15th Annual General Meeting of the Members of One Point One Solutions Limited ("The Company") is scheduled to be held on Friday, 22nd September 2023 at 11:30 a.m., through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of 15th Annual General Meeting.

In compliance with MCA Circulars, section 101 and 136 of the Companies Act, 2013, electronic copies of the Notice of the AGM and the integrated Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent to all the shareholders through electronic mode by the Company's Registrars and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited whose email addresses are registered with the Company's Depository Participant(s). The Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email addresses are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective depository participants. The integrated Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening the Fifteenth Annual General Meeting is available on the website of the Company (www.point1.com). The shareholders may please note that in terms of aforementioned circulars, the Company will not send the physical copies of AGM Notice and Annual Report 2022-23 to the shareholders.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address with the Company can obtain notice of the AGM and the integrated Annual Report for the financial year 2022-23 through VC/OAVM facility including e-voting by sending scanned copy of a) Copy of the signed request letter mentioning the folio number, name and address of the member b) self-attested copy of PAN Card and c) Self-attested copy of address proof (e.g. Aadhar, Driving license, Election Identity Card, Passport) of the member by email to investors@point1.in, evoting@nsdl.co.in and rti.helpdesk@linkintime.co.in.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the notice of 15th Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Company is providing facility for voting by electronic means ("e-voting") to its members for which the Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited through its Infostate platform to provide e-voting facilities. The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Kumudini Bhalerao, Practising Company Secretary (COP 3690) or failing her Mr. Mikarand M. Joshi COP 3692, as Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting and e-voting at the meeting process in a fair and transparent manner. The procedure to be followed by the members for e-voting is as follows:

In terms of section 91 of the Companies Act 2013 and applicable rules made thereunder, the remote e-voting period begins on Tuesday 19th September 2023 at 10:00 a.m. and ends on Thursday 21st September 2023 at 5:00 p.m. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 15th September 2023, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting, thereafter.

Any person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on cut off date i.e. Friday, 15th September 2023, only shall avail the facility of remote e-voting/e-voting at the meeting. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 16th September, 2023 to Friday, 22nd September, 2023 (both days inclusive).

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday 15th September 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request to any of the following email id: rti.helpdesk@linkintime.co.in or seema_narang@talbros.com.

Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be eligible to cast their vote(s) again.

For detailed instructions pertaining to attending of AGM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means ("OAVM") and e-voting, members may refer to Notice of the Annual General Meeting. In case of any query or grievance pertaining to the e-voting procedure, Shareholders may get in touch with following:

Prish Sonawane
Link Intime India Private Ltd.
Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, 400083, Maharashtra, Tel: +91 22 49186200, Fax: +91 22 49186195, Email: rti.helpdesk@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in
Contact Link Intime e-Voting System
Email id: https://investorlinkintime.co.in or contact at 022-49186000 (Ext: 2341).

Mr. Rakesh Dalvi
Central Depository Services India Ltd.
Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Pareil (East), Mumbai - 400013, Tel: 022-23058542, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
Further details may be accessed from the website of the Company www.point1.com or the website of National Stock Exchange of India Limited viz. www.nseindia.com

By order of the Board of Directors
Prish Sonawane
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai Date: 30th August 2023

SEPC Limited
Corporate Identity Number: L74210TN2008PLC045617
Registered Office: 4th Floor, Barcose Futura SV, Over No. 10/1, Venkatarayana Road, T. Nagar, Chennai - 600017.
www.sepc.in

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (23rd AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 21, 2023 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars issued in this regard to transact the business(es) set forth in the Notice convening the AGM. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at www.evotingindia.com. Members participating in the meeting through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 23rd AGM and Annual Report 2022-2023 has been sent on August 30, 2023 to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company i.e. <http://www.sepc.in/investors-annualreport.aspx> and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e., <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> also on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, 2015 the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on September 13, 2023 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by CDSL. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., September 13, 2023.

M/s. M. Alagar & Associates, Practising Company Secretaries (Membership No. FCS 7488), Chennai as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process via remote e-voting and e-voting at the 23rd AGM in a fair and transparent manner. Further, the facility for voting through electronic voting system will not be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Information and instructions including details of the User ID and Password is given in the Notes to the Notice of the AGM. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OAVM. Detailed process and manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period commences on Monday, 18th September, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 20th September, 2023 (5.00 p.m. IST) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During the remote e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date Wednesday, 13th September, 2023, may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or cancelled. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after despatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e., 13th September, 2023, may obtain the User ID and Password by following the procedure given in the notes to the Notice of the AGM. If the member is already registered with CDSL for e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from September 14, 2023 to September 21, 2023 for the purpose of 23rd AGM of the Company.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting through CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N.M Joshi Marg, Lower Pareil (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

For SEPC LIMITED
T SRIRAMAN
Company Secretary & Compliance Officer
Date : August 30, 2023 ACS No. 68102

Bafna BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L24294TN1995PLC030698
Regd Off: "Bafna Towers" No 299, Thambu Chetty Street, Chennai-600001
Ph: 044-25267517 / 25270992
Email: info@bafnapharma.com, Website: www.bafnapharma.com

NOTICE- Dispatch of Notice of 26th Annual General Meeting, Annual Report 2022-23, Remote E-Voting Instructions and Cut-off Date.

Notice is hereby given that:

1. The 26th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday, September 22, 2023, at 10:25 a.m. IST through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC / OAVM), to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated August 11, 2023.

2. In compliance with the General Circular No. 10/2022, dated December 28, 2022, (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/P0D-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, issued by the Securities Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), electronic copies of the Notice of the said AGM together with e-voting instructions and Annual Report for 2022-23, have been sent on August 30, 2023, to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s), the said documents are made available on the website of the Company at <https://www.bafnapharma.com> to view / download by the members. The same are also made available on the websites of Stock Exchanges <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> and CDSL at <https://www.evotingindia.com>. The dispatch of the Notice, Annual Report and instructions on e-voting and VC, through e-mails has been completed on August 30, 2023.

3. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to provide e-voting facility to all its members to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the AGM Notice, through e-voting platform provided by Central Depository Services Limited, Mr. Pankaj Mehta (Membership No. A29407 & COP: 10598), Partner, A K Jain Associates, Chennai, has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. In this regard, the Company hereby informs the members the following:

i. All the business as set forth in the said AGM Notice may be transacted through voting by electronic means;

ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 8, 2023.

iii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 19, 2023, (9.00a.m. IST);

iv. The remote e-voting shall end on Thursday, September 21, 2023, (5.00 p. IST);

v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., September 8, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

vi. Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on September 21, 2023; b) the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the Annual General Meeting ("AGM") and the members who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote during said AGM through e-voting; c) the members who have cast their vote by remote e-vote again, once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed change it subsequently; and d) A person whose name is recorded in the register of members and in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on September 08, 2023, (cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

vii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM. The details are also available on the website of the Company <https://www.bafnapharma.com>.

viii. In case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com, or call on toll free no: 1800 22 55 33 or send a request to www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N.M Joshi Marg, Lower Pareil (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

ix. Instructions for members for attending the AGM through VC are covered in detail in Notice.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rules framed there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 16th September 2023 to Friday, 22nd September 2023 (Both days inclusive)** for the purpose of AGM.

For Bafna Pharmaceuticals Limited,
Sd/-
Place: Chennai (Vishnu V. Kuppa)
Date: August 30, 2023 Company Secretary & Compliance Officer

BRITISH NANDY COMMUNICATIONS

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the British Nandy Communications Limited will be held on Friday, September 22, 2023 at 3 pm through Video Conference/ Other Audio Visual means in compliance with the all-applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and all the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 22/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 (Collectively referred to as "MCA Circulars") and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI to transact the businesses set forth in the notice of 30th Annual General Meeting.

In compliance with the above circulars, electronic copies of notice of AGM and annual report for financial year 2022-23 has been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) on August 30, 2023. The notice of the 30th AGM and Annual report for the financial year 2022-23 are available on the Company's website at www.pritishnandy.com and on website of BSE Ltd and NSE Ltd.

The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. ("the Act")

Notice is also hereby given pursuant to Section 94 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, that the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Manner of Casting Vote through e-voting:

- Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Meeting by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system. ("remote e-voting") or e-voting on the date of the AGM that will be provided by CDSL.
- The detailed procedure for casting of votes through e-voting are provided in the Notice of 30th AGM at point 26.
- Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e. Thursday, September 14, 2023 can login and obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or companysecretary@prishnandy.com in case the member is already registered with CDSL for remote voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.
- The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the AGM. The member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting shall not be allowed to vote again during the meeting. The remote e-voting module shall be disabled.
- The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is September 14, 2023. The remote e-voting period commences at 9 am Monday, September 18, 2023 to 5 pm on Thursday, September 21, 2023 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialised form. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The notice is being issued for information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.
- For any e-voting queries, members may contact Mr. Rakesh Dalvi at 022-2305542/3 or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com Members may also email to the Company at companysecretary@prishnandy.com

By order of the Board
For Prish Nandy Communications Limited
Santosh Ghate
Company Secretary

Mumbai August 30, 2023

Prish Nandy Communications Limited CIN: L22120MH1993PLC02414 87/88 Mittal Chambers Narain Park Mumbai 400021 India
Tel: 022 42130000 Visit www.pritishnandy.com Email: investor@prishnandy.com

LOTUS LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED
CIN: L85110T21997PLC007783
Regd. Office: SF No. 77/12, Avinashi Road, Civil Aerodrome Post, Coimbatore - 641 014
Tel: 91 0422 4229900, Fax: 91 0422 4229933.
Web: www.lotuseye.org E-mail: companysecretary@lotuseye.org

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED ("the Company") will be held on Monday 25th September 2023 at 04:00 PM through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the Twenty Sixth AGM, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), read with the circulars issued by MCA and SEBI in this regard without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 26th AGM shall be the Registered Office of the Company.

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 26th AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2022-23 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, shall be sent through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 26th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars. The Notice of the 26th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at www.lotuseye.org, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Manner of voting for members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of AGM, and also on the website of the Company. The facility of e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in the notice of AGM. Members who have not registered their email-id and/or Bank details are requested to register the same by following the procedure given below.

In case of Physical Holding	Send a duly signed request letter to the Registrar and Transfer Agent of the Company, the contact details of which is provided below, containing the following: (a) Folio No., (b) Name or shareholder, (c) Copy of the share certificate (front and back), (d) Copy of PAN card (self-attested), (e) Copy of AADHAR (self-attested) Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account Detail: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number (d) MICR Code Number (e) IFSC Code, and Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder
In case of Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP

The Board of Directors has recommended dividend for financial year 2022-23. To receive credit of dividends to the bank account through ECS (Electronic Clearing Service), holders of shares in physical form are requested to provide details of account number, name of bank and branch and address to our RTA-SKDC Consultants Limited "Surya" 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, TN, India | Phone: +91 4224958995, 2539835/836 | Mobile# +91 422 2539837 | Email: info@skdcconsultants.com | www.skdcconsultants.com

For demat shares, Bank account particulars are to be informed directly to your DP. Also, as dividend income is taxable in the hands of shareholders effective 01st April 2020, please update your residential status, PAN & category as per Income-Tax Act with your DP or your RTA.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA and SEBI Circulars as stated above.

By Order of the Board
For LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED
(Sd/-) Achuth Menon
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Coimbatore Date: 31.08.2023

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES)

Brooks BROOKS LABORATORIES LIMITED
LABORATORIES LIMITED
Corporate Identification Number: L24232HP2002PLC000267

Our Company was originally incorporated as Brooks Laboratories Limited on January 23, 2002 under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 24910 issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. We received Certificate of Commencement of Business dated February 19, 2002, issued by the Registrar of Companies Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. There has been no change in the name of our Company since incorporation.

Registered Office: Village Kishanpura, Nalagarh Road, Baddi, Nalagarh - 174101, Himachal Pradesh, India
Corporate Office: (Address where books of account and papers are maintained): 201, The Summit Business Bay, Off. Andheri Kurla Road, Opposite Guru Nanak Petrol Pump, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India
Tel: 022- 69073100; Website: www.brookslabs.net; E-mail: cs@brookslabs.net
Contact Person: Jai Prakash Vaidya, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. ATUL RANCHAL AND MR. RAJESH MAHAJAN

ISSUE OF UP TO 15,43,926 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 75.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 65/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 1,157.94 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 16 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. JULY 28, 2023. THE ISSUE PRICE IS 7.50 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Brooks Laboratories Limited wishes to thank all applicants for their response to the Issue which opened for subscription on August 7, 2023 and closed on August 22, 2023 and the last date for on market renunciation was August 17, 2023. Out of a total of 2,423 Applications received, 753 were rejected on Technical Grounds. The total number of valid Applications

रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
मुख्य कार्यालय पहाड़गंज, नई दिल्ली-110 055 www.ramgarhiabank.com

वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बिक्री सूचना
जबकि रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।
जबकि नीचे वर्णित कर्जदार और गारंटर रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को उनके द्वारा देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत "जहां है जैसा है और जो कुछ भी है वहां है" के आधार पर सार्वजनिक रूप से बेचने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	जमानती का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकया राशि	आर्क्षित मूल्य
1.	श्री सुनिंद सिंह हनिवा	श्री गजीब अग्रवाल सुश्री माधवी	भुगतान पर एक दुकान नंबर 3, (7 फीट 9 इंच) संघिन नंबर 41-240, खसरा नंबर 11/38 में से, ही-वर्ल्ड, लक्ष्मी नगर की आवादी में, खुदगी खास गांव, इलाका, शाहदरा, दिल्ली - 110 092 में स्थित। कच्चे की तिथि: 27-07-2023	₹ 31,07,20,23,23 तक ₹. 35,00 लाख + ब्याज तथा विविध प्रभार	₹. 32.00 लाख
2.	मैसर्स युग ओवरसीज प्रोपार्टर दीपक कुमार	(1) श्रीमती रचना बुद्धिदास (2) श्री लोकेश कुमार	फ्लैट नंबर 4, भुगतान, एलआईडी, (ब्लैकब्रॉड 41.80 वर्ग मीटर) प्लॉट नंबर सी-22, ब्लॉक-सी, राम प्रस्थ परगना लोनी जिला गाजियाबाद, उ.प्र. (विमान छत के अधिकांश) कच्चे की तिथि: 29-11-2016	₹ 30,06,20,23,23 तक ₹. 60.83 लाख + ब्याज तथा विविध प्रभार	₹. 40.00 लाख

E.&O.E.
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों और गारंटरों को विशेष रूप से और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि ऊपर वर्णित संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया की तिथि से 30 दिन में सार्वजनिक नीलामी से प्रभावी होगी। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने और उर्वरुक संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति अलग से निर्धारित आवेदन पत्र में निम्न और शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं जो बैंक की वेबसाइट www.ramgarhiabank.com पर उपलब्ध है और इसे नीलामी की तिथि से पहले 10:00 यूटीसी 5:00 अपराह्न के बीच बैंक के अधिकृत अधिकारी (श्री जसपाल सिंह, मो. नं. 9811256016) से भी प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त संपत्ति को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति नीलामी की तारीख से एक दिन पहले बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऊपर बताए गए आवश्यक मूल्य के 10% जमा धरोहर राशि के साथ विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उपरोक्त अनुसूची में निहित प्रतिभूति संपत्ति का विवरण अधिकृत अधिकारी को सर्वोपलब्ध जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बकामी या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द/निव्विध/रद्द/रद्द करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को पंद्रहवात सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और अन्य खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्तियों की बिक्री की जाएगी।
स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 29.08.2023
अधिकृत अधिकारी

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वित्तीय बैंक)

ई-नीलामी सूचना
पंजीकृत कार्यालय : दि फोरवे, यू टल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क से सटा, थाल्लाघट्टा, बैंगलुरु-560071. शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रवर्तन अधिनियम (सफासी ऐक्ट), 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के परंतुक के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। एलएद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित खातों में बंधक संपत्ति की "जैसी है जहां है आधार" तथा "जो है जैसी है आधार" पर ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) यहां नीचे निर्धारित तिथि को की जाएगी।

क्र. सं.	जमानता संख्या	मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	28-08-2023 तक वर्तमान बकया राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	सुप्रीम मूल्य भारतीय रुपए	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपए	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	45128640001862 45128640002110 एवं 451202000048641	1) मैसर्स कल्प सच सिटीब्यूटर्स इसके स्वामी श्री अशोक सिंह दहिया द्वारा प्रतिभूतिकृत 2) श्री अशोक सिंह दहिया पुत्र कल्प सिंह दहिया (कुलिवर) स्वामी 3) श्री रमेश सिंह दहिया (गारंटर), 4) श्रीमती सोनिया (गारंटर)	19-12-2022	07-07-2023	₹. 4,10,17,389.90/- (रुएए चार करोड़ दस लाख सत्रह हजार तीन सौ नवासी तथा पैसे नब्बे मात्र)	08-09-2023 पूर्ण 09.00 बजे से अप 05.30 बजे तक	₹. 3,53,79,000/- (रुएए तीन लाख सौतीस हजार नौ मात्र)	₹. 35,37,900/- (रुएए पैंतीस लाख सौतीस हजार नौ मात्र)	19-08-2023 पूर्ण 11:00 बजे	18-08-2023 अप 05.00 बजे से पूर्व जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय - 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

प्रत्यक्ष आसित का विवरण : मकान नंबर 2406/3 पुराना, नया नंबर 9/77/27, खसरा नंबर 10105/1736, भगवती सदन, दिल्ली रोड, गुरुग्राम-122001 : श्री अशोक सिंह दहिया तथा श्री रमेश सिंह दहिया पुत्र स्व. श्री कल्प सिंह दहिया द्वारा स्वाधिकृत। धौदुदी: पूरुव: अन्य सम्पत्ति, परिधम: रास्ता 22 फीट, उत्तर: श्रीमती पुष्पा की सम्पत्ति दक्षिण: श्रीमती आशा की सम्पत्ति

सम्पत्तियों की बिक्री "जैसी है जहां है आधार" तथा "जो है जैसी है आधार" पर की जा रही है तथा ई-नीलामी "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी का संचालन बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर द्वारा वेबपोर्टल <https://bankauctions.in> एवं www.foreclosureindia.com पर किया जाएगा। अधिक जानकारी, सहायता, ई-नीलामी प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण, के लिए संबंधित बोलीदाता मैसर्स 4 क्लोजर से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क श्री गारंटर नारायण सम्पर्क नंबर : 8142000809#142000081
ई-मेल आईडी: info@bankauctions.in / subrao@bankauctions.in.
ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त विवरण के लिए तथा सम्पत्ति के संबंध में पूछताछ के लिए कृपया जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकारी श्री राकेश शर्मा से सम्पर्क करें (मोबाइल नंबर 7230070463), श्री शशि (मोबाइल नंबर 8702771271) तथा रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 9890885249)। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणधार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति पर ऋणधारों तथा स्वामित्व के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच स्वयं कर लेनी चाहिए। सराई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह सूचना उपरोक्त नामक कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को बैंक सम्पत्तियों हेतु अनुसूचित ई-नीलामी के बारे में नोटिस भी है। कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को एलएद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज तथा अनुसूची खर्चों के साथ नीलामी की तिथि से पहले कर दें, वरिष्ठमें अद्यतन रहने पर सम्पत्ति बेच दी जाएगी और बकया राशि, यदि कोई, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जाएगी।
तिथि : 31-08-2023, स्थान : गुरुग्राम
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक
दबावग्रस्त संपत्ति वसूली शाखा, #40 एसडीए कॉम्प्लेक्स, आंचलिक कार्यालय भवन, कसुमटी, शिमला-171009, दूरभाष नंबर: 0177-2626796, 2626795, ई-मेल: sbi.18185@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
ईएमडी और दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले
नियम 6(2) और 8(6) का प्रावधान देखें चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
एलएद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं (ओं) और गारंटरों (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिकोण/गिरवी/चाबू/बंधक नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जो कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूति लेनदार को देय प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि की वसूली के लिए "जहां है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। आर्क्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि और युद्धि राशि प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि होगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूति ऋणदाता की वेबसाइट www.statebankofindia.com में दिए गए लिंक को देखें।

चल/अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार (ों)/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकया राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1	उधारकर्ता:- मैसर्स भुवनेश्वरी एजुकेशनल सोसायटी, वाया एम.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, श्री एम.जी. शरनिवा पुत्र स्व. राम स्वरूप शर्मा के माध्यम से, ग्राम भोट, पी.ओ. चञ्जोखारी, तहसील सुडेमागर, जिला मंडी (हि.प्र.) - 175018 (2) मैसर्स भुवनेश्वरी एजुकेशनल सोसायटी, ग्राम दयाली/165, तहसील चञ्चोट, जिला मण्डी (हि.प्र.) (3) श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व. लाल चंद, गांव मंजरोट, पी.ओ. चंबी, तहसील सुडेमागर, जिला मण्डी (हि.प्र.) - 175018 (4) श्री करतार सिंह पुत्र स्व. नाम राम, गांव भादु, तहसील चञ्चोट, जिला मण्डी (हि.प्र.) - 175025 (5) श्री. एम.जी. शर्मा पुत्र स्व. राम स्वरूप शर्मा, ग्राम भोट, पी.ओ. चञ्जोखारी, तहसील सुडेमागर, जिला मंडी (हि.प्र.) - 175018.	संपत्ति-I:- भूमि और भवन, के/के 40 मिन्/94 मिन् खसरा संख्या 477, 478/2, 487/2 किता-3 शामिल है, भूमि की माप 13-01-11 बीघा, जो मुहाल दयाली/165, तहसील चञ्चोट, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) में स्थित, मैसर्स भुवनेश्वरी एजुकेशनल सोसायटी के नाम पर रजिस्ट्रार ऑफिस संख्या 14 दिनांक: 03.01.2007 (सरसाई आईडी संख्या 200014398353) - संपत्ति आईडी: SBIN200014398353 संपत्ति-II:- 17- 02-08 बीघे की कुल भूमि और भवन का समस्त भाग, के/के नंबर 34/63 मिन् खसरा नंबर 418, 419, 420, 422, 423/1, 435, 437, 446, 447, 449, 456/1, 459, 461, 462, 468, 470, 489/1, 623, 630, 633, 636, 640, 641, 643, 647/1, 660, 740, 741, 748, 753, 756, 758, 761/1, 767, 773, 775, 777, 784, 790, 792, 804, 813, 817, 820, 823, 825, 833 किता 47 जमीन 16-18-11 बीघा 1/2 हिस्सा, 8-9-6 बीघा मुहाल दयाली/165, तहसील चञ्चोट, जिला मंडी (हि.प्र.) में स्थित, और के/के नं. 26/47-48 किता 46-11-01-11 बीघे का 29/180 हिस्सा-15-11 बीघे के/के नं. 27/49 किता 3,1-2 - 19 बीघा 1/3 हिस्सा, 0-7-12 बीघा के/के नं. 28/50 किता 60,10-07-02 बीघे अर्थात 1/6 हिस्सा,1-14-10 बीघा, के/के नं. 29/51,52 किता 8,0-12-12 बीघा यानी 1/5 हिस्सा, 0-2-10 बीघा, के/के नंबर 31/55 से 57 किता 77,29-16-13 यानी 1/48 हिस्सा, 0-12-9 बीघा, के/के नंबर 32/58 से 61 किता 39-9-3-7 बीघा यानी 1/15 हिस्सा, 0-12-4 बीघा, के/के नंबर 35/65 से 70 किता 104 , 12-9-3 बीघा यानी 9/60 हिस्सा, 2-18-6 बीघा, के/के नंबर 36/71 से 78 किता 20,12-0-15 बीघा यानी 1/48 हिस्सा, 0-5-0 बीघा, के/के नंबर 38/82 से 92 किता 56, 8-10-19 जमीन यानी 1/34 हिस्सा, 0-5-0 बिघा कुल भूमि माप 8-13-2 मुहाल दयाली/165 तहसील चञ्चोट जिला मंडी (हि.प्र.) में स्थित। मदन गोपाल शर्मा के नाम पर रजिस्ट्रार ऑफिस नंबर 450 दिनांक:11.12.2006 (सरसाई आईडी नंबर 200014398463) - संपत्ति आईडी: SBIM200014398463	₹. 3,96,06,746/- 28.10.2012 तक तथा उस पर ब्याज एवं व्यव तथा अन्य प्रभार (24.03.2015 से मौलिक कच्चे के तहत रुद्धकर)	21.09.2023 11:00 बजे से 16:00 बजे

संपत्ति-I:-
● आर्क्षित मूल्य: ₹. 2,96,50,000/- ● ईएमडी राशि: ₹. 29,65,000/- ● बोली युद्धि राशि: ₹. 1,00,000/-
संपत्ति-II:-
● आर्क्षित मूल्य: ₹. 1,47,00,000/- ● ईएमडी राशि: ₹. 14,70,000/- ● बोली युद्धि राशि: ₹. 1,00,000/-
निरीक्षण की तिथि: 13.09.2023

यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों तथा जमानतियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिवसीय सूचना है।

नियम एवं शर्तें: ई-नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता: मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से इसकी नीलामी साइट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी विधिवत दस्तावेज विस्तृत ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को वेबपोर्टल के माध्यम से अपनी ईएमडी (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जमा करना होगा। (युद्धि आईडी और पासवर्ड निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।) लेकिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से नाम दर्ज करने लागत का भुगतान करें। (बोलीदाता/व्यक्ति) को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। केवाईसी सत्यापन किया जाएगा, बोलीदाता को आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने में 02 कार्य दिवस लग सकते हैं, फिर एमएसटीसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ईएमडी का भुगतान बोलीदाता के नीलामी स्थल पर मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकृत बैंकेट में एमएसटीसीआईआईआरएस के माध्यम से किया जाएगा। अधिक विवरण नियमों और शर्तों के लिए, कृपया एमएसटीसी लिमिटेड साइट देखें। प्रतिभूति ऋणदाता के संबंध में संपत्तियों पर कोई ऋणधार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाता को बोली जमा करने से पहले संपत्ति पर पड़ने वाले ऋणधार, संपत्ति के स्वामित्व, सीमांकन या सरकार के कारण होने वाले किसी अन्य प्रभार, या संपत्ति पर पड़ने वाले किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करना चाहिए। बिक्री <https://mscecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के तहत निर्धारित नियम/शर्तों के अधीन होगी।
प्राधिकृत अधिकारी, मो.: 98151-41477

दिनांक: 30.08.2023 स्थान: शिमला (हि.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES)

Brooks BROOKS LABORATORIES LIMITED
LABORATORIES LIMITED
Corporate Identification Number: L24232HP2002PLC000267
Our Company was originally incorporated as Brooks Laboratories Limited on January 23, 2002 under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 24910 issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. We received Certificate of Commencement of Business dated February 19, 2002, issued by the Registrar of Companies Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. There has been no change in the name of our Company since incorporation.

Registered Office: Village Kishanpura, Nalagarh Road, Baddi, Nalagarh - 174101, Himachal Pradesh, India
Corporate Office: (Address where books of account and papers are maintained): 201, The Summit Business Bay, Off. Andheri Kurla Road, Opposite Guru Nanak Petrol Pump, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India
Tel: 022- 69073100; Website: www.brookslabs.net; E-mail: cs@brookslabs.net
Contact Person: Jai Prakash Vaidya, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. ATUL RANCHAL AND MR. RAJESH MAHAJAN

ISSUE OF UP TO 15,43,926 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 75.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 65/- PER RIGHTS EQUITY SHARE, FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 1,157.94 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 16 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. JULY 28, 2023. THE ISSUE PRICE IS ₹ 75.00 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Brooks Laboratories Limited wishes to thank all applicants for their response to the Issue which opened for subscription on August 7, 2023 and closed on August 22, 2023 and the last date for on market renunciation was August 17, 2023. Out of a total of 2,423 Applications received, 753 were rejected on Technical Grounds. The total number of valid Applications received were 1,670 for 33,32,423 Equity Shares, which was 215.84% of the total issue in terms of the number of Equity Shares applied. The Basis of Allotment was approved in consultation with BSE, the designated stock exchange on August 25, 2023. The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 28, 2023, approved the issue and allotment of Shares. All valid applications have been considered for allotment.

1. The break-up of Applications is given below (Before Technical Rejection):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied For			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	2326	96.00%	34,37,782	25,78,33,650	97.81%	14,97,603	11,23,20,225	97.00%
Renouces	97	4.00%	77,086	57,81,450	2.19%	46,323	34,74,225	3.00%
Total (A)	2423	100.00%	35,14,868	26,36,15,100	100.00%	15,43,926	11,57,94,450	100.00%

2. Basis of Allotment

Category	Number of Valid Applications (including ASBA Applications)	Number of Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	Number of Equity Shares Allotted Against additional shares Applied (B)	Total Equity Shares Allotted (A + B)
Eligible Equity Shareholders	32,55,337	11,97,969	2,99,634	14,97,603
Renouces	77,086	46,323	0	46,323
Total	33,32,423	12,44,292	2,99,634	15,43,926

DISPATCH / REFUND ORDERS: The dispatch of allotment advice cum refund intimation to the allottees as applicable, will be completed on or before August 30, 2023. The instructions to ASBA Banks for unblocking of funds was given by August 25, 2023. The listing application was filed with BSE on August 28, 2023. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable will be completed on or before August 30, 2023. The Equity Shares allotted to the Applicants who have not specified their demat details, have been credited to demat suspense account. Within 6 months from the Allotment Date, such Eligible Equity Shareholders shall be required to send a communication to our Company or the Registrar containing the name(s), Indian address, email address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by post, speed post, courier, electronic mail or hand delivery. Our Company (with the assistance of the Registrar) shall, after verification of the details of such demat account by the Registrar, transfer the Rights Equity Shares from the demat suspense account to the demat accounts of such Eligible Equity Shareholders. In case of non-receipt of details of demat account as per (b) above, our Company shall conduct a sale of such Rights Equity Shares lying in the demat suspense account on the floor of the Stock Exchange at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident Eligible Equity Shareholders in their respective Application Forms and from which the payment for Application Money was made. For further details please refer page 137 of the Letter of Offer. The Equity Shares offered pursuant to the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from August 31, 2023, subject to receipt of listing and trading approvals and shall be traded under the same ISIN INE650L01011, as the existing Equity Shares. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on August 28, 2023.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE ISSUE SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE
It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited on page 136.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE
It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE on page 136.

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime
Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.
Tel: +91 810 811 4949
Investor Grievance Email: brooks.rights2023@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058
Contact Person: Sumeet Deshpande

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Brooks LABORATORIES LIMITED
Jai Prakash Vaidya
Corporate Office: (Address where books of account and papers are maintained): 201, The Summit Business Bay, Off. Andheri Kurla Road, Opposite Guru Nanak Petrol Pump, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India.
Tel: 022- 69073100
Website: www.brookslabs.net
E-mail: cs@brookslabs.net

Applicants can contact the Registrar or the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.

All grievances with respect to the issue may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name and address of the First/Sole applicants, email id, contact number, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged along with the copy of acknowledgement slip.

For BROOKS LABORATORIES LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
WHOLE TIME DIRECTOR

Place: Baddi
Date: August 30, 2023

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE OR LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF BROOKS LABORATORIES LIMITED.

Communicate India

pnb punjab national bank
... Together for the better

ई-नीलामी/बिक्री सूचना
सकल सर्व सेंटर: मंडी (हि.प्र.), फोन: 01905-222094
चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति लेनदारों को ज्ञात अग्रभागों का विवरण : ज्ञात नहीं

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को निरी रखाई गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री। जबकि, पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/8(6) के साथ पठित प्रांत 13(2) के तहत जहां नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर निम्नलिखित ऋण खातों में बैंक को बकया राशि और ब्याज की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है आधार' और 'जैसा है जो है आधार' पर इसे बेचने के अधिकार सौंप कर दिया है, और जबकि देय राशि चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करते हुए संपत्तियों/संपत्तियों की बिक्री से बैंक को बकया राशि की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल (<https://www.ibapi.in>; <http://www.mscecommerce.com>) पर उपलब्ध ई-नीलामी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। बैंक पात्र मामलों के लिए बोली लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

नीलामी भागीदारी आवेदन, केवाईसी दस्तावेज, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 20.09.2023, बुधवार

कर्जदार का नाम तथा शाखा विवरण	सम्पत्ति के स्वामी/बंधककर्ता का नाम	बंधक अचल संपत्तियों का विवरण तथा शास्त्री/बंधककर्ता का नाम	सर्वेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना 13(2) के अनुसार राशि कच्चे की प्रकृति	आर्क्षित मूल्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बोली युद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
मैसर्स भुवनेश्वरी एजुकेशनल सोसायटी, पंजीकृत पता:- मयूर कॉम्प्लेक्स, हारा बाग, तहसील सुदेमागर, जिला मंडी हि.प्र. संख्या:- 257600IC00000013 एवं 257600IA00000019 पंजाब नेशनल बैंक, बडु, जिला मंडी (हि.प्र.)	श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप श्रीमती कल्पना शर्मा पुत्री श्री रतन लाल	(1) मौजा दयाली/165, तहसील चञ्चोट, जिला मंडी, हि.प्र. में स्थित खाता/खतीनी नंबर 4/4 से 12 किता-120 में शामिल कुल भूमि क्षेत्र 35-07-02 बीघे में से 11-00-19 बीघे की रचना भूमि और भवन के हिस्से का समस्त भाग श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप के नाम पर, (2) संपत्ति कुल भूमि, 01-00-02 बीघे, मुहाल दयाली/165, तहसील चञ्चोट, जिला मंडी हि.प्र. में स्थित का समस्त भाग, श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप के नाम पर (क) खाता/खतीनी संख्या 25/46-47, किता-46 में शामिल 0-04-12 बीघे (11-00-11 बीघे की जमीन का 1/4			

